

भारतीय अनार के लिये बांग्लादेश शीर्ष गंतव्य

बांग्लादेश पछिले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के नरियात के लिये शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है।

- पछिले वित्तीय वर्ष (2020-21) में भारत ने 68,502.9 टन फलों का नरियात किया था, जिसमें से 36,906.77 टन (50% से अधिक) बांग्लादेश को किया गया।

प्रमुख बढि

■ परिचय:

- अनार (पुनिका ग्रेनेटम) दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है।
 - यह अर्द्ध-शुष्क परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे औसत समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊँचाई तक उगाया जा सकता है। यह गर्म एवं शुष्क तथा सर्दियों में अच्छी तरह से उगता है, बशर्ते कि उपयुक्त संचाई की सुविधा उपलब्ध हो।
- अनार अधिकांशतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में उगाया जाता है, अनार राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये एक प्रमुख नरियात फसल के रूप में उभरा है।
- पछिले कुछ वर्षों में भारतीय नरियात लगभग 50,000-60,000 टन पर स्थिर हो गया है, क्योंकि फलों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने के कारण विकास क्षमता प्रभावित हुई है।
- जबकि यूरोपीय संघ एक प्रमुख बाजार है जहाँ फल प्रीमियम मूल्य प्राप्त करते हैं और वहाँ गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले मानक अधिक हैं।
 - नरियात के लिये तैयार फलों की अनुपलब्धता ने पछिले कुछ वर्षों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय नरियातकों के आकर्षण को कम किया है।

■ बांग्लादेश में नरियात वृद्धि के कारण:

- परिवहन में आसानी और अपेक्षाकृत आसान आयात मानदंडों (Ease of transportation and relatively relaxed import norms) ने भारतीय उत्पादकों को अपने फल (fruit) बांग्लादेश ले जाने में मदद की है, भले ही यूरोपीय देशों को नरियात के हिससे में गरिवट आई है।
- यह फल (fruit) पूरे वर्ष बांग्लादेश को नरियात किया जा सकता है और इस प्रकार यूरोपीय मौसम समाप्त होने पर भी अपनी उपज भेज सकते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस